

August 31, 2024

BSE Limited

Corporate Services Department Phiroze Jeejeeboy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Symbol: QUINT **Scrip Code:** 539515

Subject: Newspaper Advertisement- Completion of dispatch of the Notice of the 39th Annual General Meeting &

Annual Report for FY 2023-24

Reference: Intimation under Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement of the notice to the shareholders of the Company regarding 39th Annual General Meeting, which is scheduled to be held on Friday, September 27, 2024 at 04:00 pm (IST) through Video Conference/ Other Audio-Visual Means, published in "Financial Express" (English Newspaper) and "Jansatta" (Hindi Newspaper) on August 31, 2024.

This intimation will also be hosted on the website of the Company i.e. www.quintdigitalmedia.com.

We request you to take the above information on record.

Yours sincerely

For Quint Digital Limited

Tarun Belwal

Company Secretary & Compliance Officer

M.No.: A39190

Encl: As above

QUINT DIGITAL LIMITED

YATHARTH HOSPITAL & TRAUMA CARE SERVICES LIMITED CIN: L85110DL2008PLC174706

Regd. Office: JA 108 DLF Tower A, South Delhi, Jasola District Centre, Delhi, India, 110025 Tel.: 011-49967892; Website: https://www.yatharthhospitals.com/ Email: cs@yatharthhospitals.com/

INFORMATION REGARDING UPDATE ON

17™ ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given for the update on 17th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members at a common venue on Saturday, September 28, 2024 at 1:00 p.m. IST to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No.09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities & Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "the Circulars").

Accordingly, in compliance with the Circulars, the Notice of AGM along with the 17th Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants or Registrar & Transfer Agent, viz. Link Intime India Private Limited ("RTA") and will also be available on the Company's website https://www.yatharthhospitals.com/investors and on the website of National Stock Exchange of India Limited (NSE) & BSE Limited

Members can attend and participate in AGM only through VC/OAVM. The procedure and instructions for joining the AGM through VC/QAVM will be provided in the Notice of AGM. Members attending AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Act. The Members whose email addresses are not yet registered or updated are requested to register their email addresses with the Company/Depository Participants/RTA.

The Company is providing remote e-Voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Members have an option to cast their votes on any resolutions using the remote e-Voting facility or e-Voting during the AGM. Detailed procedure for remote e-Voting/e-Voting during AGM for all the Members (including the Members holding shares in physical form/whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participants/RTA) will be provided in the Notice of AGM.

> Ritesh Mishra Company Secretary& Compliance Officer

By Order of the Board of Directors

EXDONO LIMITED

Date: August 30, 2024

Place: Noida

CIN: U67120WB1982PLC034732; Registered Office: 2 N C Dutta Sarani, 7th Floor, Unit No 7, Kolkata - 700001; Tel. No.: 033 2230 9076; Email: exdonoltd@gmail.com, Website: https://exdonoltd.in/

NOTICE TO SHAREHOLDERS Members are hereby informed that pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act. 2013. (the 'Act') read with Rules 20 & 22 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) as amended from time to time, read with the General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, in relation to "Clarification on passing of ordinary and account of COVID-19", along with General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020. General Circular No.33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 08, 2021, General Circular No. 03/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 December 28, 2022 and General Circular No. 09/23 dated September 25, 2023 in relation to extension of the framework provided in the aforementioned circulars up to September 30, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs, and the Securities and Exchange Board of India Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and other applicable laws and Regulation 11 of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended from time to time, the Notice of the Posta Ballot has been sent on August 30, 2024 to all the members whose names appear or the Register of Members / list of Beneficial Owners as on August 23, 2024 through electronic mail to all those members whose Email-ids are registered in the records of depository participants in compliance with the General Circulars, for seeking approva of the members of the Company by Postal Ballot (remote e-voting only), for the Specia Resolution for obtaining consent for the delisting of equity shares of the Company from the Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE" / "Stock Exchange") pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations 2021, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended and the applicable provisions of the

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India Limited ('CDSL') to provide e-voting facilities to its members. The Company is providing e-voting facilities to the Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form as on the cut-off date to cast their vote electronically through e-voting services provided by CDSL. The manner of remote e-voting has been provided in detail in the Notice of the Postal Ballot.

Companies Act, 2013 and rules made thereunder.

Date: 30.08.2024

2024 at 12.30 p.m. through Video Conferencing.

and / or by sending an email to company.secretary@modulex.in.

member, the member cannot modify it subsequently.

Manner of registering / updating email addresses

vote at the AGM

2024 (both days inclusive).

Manner of joining the AGM

Mumbai

31st August, 2024

INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM

Place: Kolkata

Members are requested to note that the e-voting through Postal Ballot will open or August 31, 2024 at 9:00 A.M. and will close on September 29, 2024 at 5:00 P.M.

The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Alok Purohit, proprietor o M/s. Alok Purohit & Associates, Practicing Company Secretary, Membership No. A48734, C.P. No.: 21797 as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through electronic voting in a fair and transparent manner. Members holding shares in physical mode and those members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same for procuring user ID and password. The Shareholders whose email addresses are not registered with the Company / Registrar and Transfer Agents / Depository Participants / Depositories, may request for registration of e-mail ids for remote e-voting for resolutions set out in the Notice:

Members who have not received the Postal Ballot Notice vide e-mail may apply to the Company at exdonoltd@gmail.com and obtain a duplicate thereof. The Postal Ballo Notice is also available at Company's website i.e. https://exdonoltd.in/ and CDSL's e-voting website i.e. www.evotingindia.com.

The e-voting rights of the Members shall be reckoned on the cut-off date i.e. August 23 2024. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for

The Scrutinizer will submit his report to the Company within two working days from the last date of e-voting and the result of Postal Ballot will be announced accordingly. The results would be communicated to the stock exchange and shall also be displayed on the Company's website i.e. https://exdonoltd.in/.

In case of any queries / grievances, the members may contact Mr. Jai Kishan Agarwal director of the Company at the Registered Office of the Company at 033 2230 9076 and email: exdonoltd@gmail.com. For any queries or issues regarding e-voting you may contact CDSL at Toll Free No. 022- 23058738 and 022-23058542-43 or e-mail helpdesk.evoting@cdslindia.com.

> By Order of the Board of Directors For Exdono Limited Jitesh J Agarwal Director

DIN: 02096924

MODULEX

MODULEX CONSTRUCTION TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L25999PN1973PLC182679

Regd Office: A 82, MIDC Industrial Estate, Indapur, Pune - 413 132

Tel: +91 02111 299061 Email id: compliance@modulex.in Website: www.modulex.in

NOTICE OF 51ST ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that the 51st Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, 26th September,

In accordance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular issued by the Securities Exchange Board of India,

The Notice of AGM, Annual Report have been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company

or the Depository Participant(s). The dispatch of the notice of the AGM and Annual Report was completed on Saturday, 31st August,

2024. The notice of the AGM and annual report for the Financial Year 2023-24 will also be available on the Company's website at www.

modulex.in, on the website of the Bombay Stock Exchange Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository

Services (India) Limited (CDSL) at www.cdslindia.com. Members who did not receive the Annual Report, may download it from the

Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the Registered Office of the Company

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014

and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the

facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the AGM. Members

holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date i.e. 19th September, 2024 are eligible to cast their vote

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as

on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. All the Members are hereby informed that the Ordinary

The remote e-voting period will commence at 9.00 a.m. on 23rd September, 2024 and will end at 5.00 p.m. on 25th September, 2024. The

remote e-voting module shall be disabled for voting at 5.00 pm on 25th September, 2024. Once the vote on a resolution is cast by the

Members who have acquired shares after dispatch of notice of AGM and annual report but before the cut-off date, may obtain the USER

ID and Password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or company.secretary@modulex.in . However, if a person is

Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during

the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to

The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 51st AGM as well as in the email sent to the Members by Purva Sharegistry (India) Private Limited. In case of any queries/grievances pertaining to e-voting may be addressed to Ms. Bhoomi Mewada,

(Company Secretary and Compliance Officer) at the designated email ID: company.secretary@modulex.in or you may refer to the

'Frequently Asked Questions' (FAQs) section on website of Purva Sharegistry (India) Private Limited., Unit no. 9, Shiv Shakti Ind. Estt, J.R.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from 19th September, 2024 to 26th September,

Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their email addresses with the Company are requested

to update their email addresses by writing to the Company at company.secretary@modulex.in along with the copy of the signed request

letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (eg.:

Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. Members holding shares in dematerialized

mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants. In case of any queries /

A facility to attend the AGM through VC / OAVM is available through the CDSL e-voting system at www.evotingindia.com.

Business(es) and Special Business(es), as set out in notice of AGM will be transacted through voting by electronic means only.

already registered with CDSL for remote e-voting then you may use your existing USER ID and Password and cast their vote.

electronically through electronic voting system (remote e-voting) provided by CDSL at www.evotingindia.com

Boricha Marg, Lower Parel (East) Mumbai-400011, Email ID: support@purvashare.com.

difficulties in registering the e-mail address, Members may write to company.secretary@modulex.in.

RailTel (A Govt. of India undertaking) (CIN: U64202DL2000G0I107905)

RailTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the work of "Deployment of maintenance team fo maintenance of optic fibre cable network and upkeep of associated gears in Tinsukia Section of RCIL/ER for a period of 2 years and extendable by one year on same terms and conditions"

GeM Bid Nos. GEM/2024/B/5340258,

Dated. 30.08.2024

Detailed GeM Bid Notice / GeM Bid Document is available on https://www.railtel.in, https://eprocure. gov.in and https://gem.gov.in. All future Addendum/ Corrigendum etc. will be uploaded on RailTel website. CPP Portal and GeM Portal. Bidders have to submit their bids on GeM Portal only.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies. associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

INDIA FINSEC LIMITED

REGD OFF: D-16, First Floor, Above ICICI Bank, Prashant Vihar,

Sector-14, Rohini, Delhi-110085.

CIN: L65923DL1994PLC060827, PH NO- 011-47096097.

E-MAIL- indiafinsec@gmail.com, Website- www.indiafinsec.com

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING

PROCEDURES & INTIMATION OF BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the

Members of India Finsec Limited will be held on Friday, 27th day of

September, 2024 at 09:30 A.M. at D-16, First Floor, Prashant Vihar,

Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 to transact the business (es) as

mentioned in the notice of AGM which is being circulated for convening

the AGM. The Company has sent the notice of AGM along with the

Annual Report for Financial Year 2023-24 through electronic mode to

the members whose email addresses are registered with the Company.

Depositories as on 28th August, 2024. The Annual Report for Financial

Year 2023-24 is available and can be downloaded from the Company's

In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with

rule 20 of The Companies (Management & Administration) Rules, 2014

("the Rules") including any statutory modification or re-enactment thereof

for the time being in force), guidelines prescribed by the MCA, the

members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions

set forth in the notice of AGM using electronic voting system (e-voting)

provided by CDSL. The voting of members shall be in proportion the

equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the

The remote E-Voting period commences on Tuesday, 24th September

2024 (10:00 am) and ends on Thursday, 26th September, 2024 (5:00

pm). During this period members may cast their votes electronically

The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

The facility for voting, either through electronic voting system or polling

paper shall also be made available at the AGM and Members who

have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to

by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall

The documents pertaining to the items of business to be transacted

in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the

Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 and section 91 of the Companies

Act, 2013, The Register of Members and Share Transfer Books of the

Company will remain closed from Saturday, 21st September, 2024 to

Friday, 27th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of

Any person who acquires shares and become member of the Company

after the dispatch of notice of the AGM by the Company and whose

name appear in the register of members of the Company or in the

statement of beneficial ownership maintained by the Depositories as

on cut-off date i.e. 20th September, 2024 can view the notice convening

the AGM on the website of the Company viz https://www.indiafinsec.in/

website of stock exchange viz BSE Limited at www.bseindia.com and

on the website of CDSL viz www.evotingindia.com. Such members

can exercise their voting rights through e-voting by following the

Members are also informed that in case you have any queries or issues

regarding e-voting, you may refer Frequently Asked Questions ("FAQs")

and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help

section or write an email to helpdesk.evotingindia@cdslindia.com or at

022-23058738 and 022-23058542/43. All grievances connected with

the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr.

Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL.) Central Depository Services (India)

Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds,

N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email

By the Order of the Board of Directors

For India Finsec Limited

Gopal Bansal

to be the Registered Office of the Company.

Managing Director

(DIN: 01246420)

to helpdesk evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

procedure as mentioned in the said notice of AGM.

not be entitled to cast their vote again.

30th AGM of the Company.

Date: 30th August, 2024

TRAVANCORE TITANIUM
PRODUCTS LIMITED

PRODUCTS LIMITED

Kochuveli. Trivandrum - 695021

E-mail: rmttpl@gmail.com, rm@ttpltd.in

e-TENDER NOTICE SUPPLY OF HDPE BAGS (6,00,000 Nos)

e-tenders are invited in TWO BID

system from experienced Manufacturers

/Suppliers for the Supply of HDPE BAGS

e-Tender No.:TTP/CD/RM/HDPE BAG/2024-25

dated 19.08.2024

Tender ID: 2024 TTPL 686595 1

Due date & time of bid submission:

06.09.2024 up to 6.00 p.m

The tender shall be submitted only by

online as e-tender through the portal

www.etenders.kerala.gov.in.

For more details, please visit our

website www.travancoretitanium.com

For Modulex Construction Technologies Limited

Company Secretary And Compliance Officer

Bhoomi Mewada

Membership No.A34561

HOD (Comml.)

Place: New Delhi

Company during business hours on any working day

exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote

Company as on Friday, 20th September, 2024 ("Cut-off date").

website www.indiafinsec.in



NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to SEBI Master Circular dated May 22,2024 and FAQs for Listing of Commercial Papers (CPs) that the Record Date and Redemption of Commercial Paper issued and listed on Wholesale Debt Market Segments of National Stock Exchange of India Limited have been fixed as under:

NOTICE

Name of the Issuer	ISIN	Due Date	Record date	Purpose (Interest/ Redemption/ Call Put Option/ if any)
Tata Motors Limited	INE155A14TD1	October 21, 2024	October 20, 2024	Redemption

For Tata Motors Limited Sd/-

Mumbai August 30, 2024 **Maloy Kumar Gupta Company Secretary**

TATA MOTORS LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai - 400 001. Website: www.tatamotors.com E-mail: inv rel@tatamotors.com Corporate Identification No. (CIN) - L28920MH1945PLC004520

HINDUSTAN OMPOSITES

CIN: L29120MH1964PLC012955

Registered Office: Peninsula Business Park, "A" Tower, 8" Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Tel.: (022) 6688 0100, Fax: (022) 6688

E-mail: hcl@hindcompo.com, Website: www.hindcompo.com

NOTICE OF 60™ ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E -VOTING AND BOOK CLOSURE

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules'), notice is hereby given that: The 60th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Friday, 27th September, 2024 at 11.45 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual

Means ("OAVM"), without physical presence of the members of the Company at a common venue to transact the business as set out in the Notice of the 60" AGM dated 14" August, 2024 in accordance with the applicable provisions of the Act and Rules read with all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') in this regard from time to time. In compliance with the Act, Rules made thereunder and applicable circulars, the Notice of the

60" AGM along with a copy of Annual Report for the financial year ended 31" March, 2024 have been sent to all the members through email, whose email addresses are registered with the Company, Depository Participants and Registrar & Transfer Agent ('RTA') of the Company. The said Annual Report along with the Notice convening the 60° AGM is also available on the website of the Company viz. www.hindcompo.com, website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') viz. www.evotingindia.com and on website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e.

20" September, 2024 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the 60" AGM through electronic voting system of CDSL from a place other than venue of AGM ("remote E-Voting"). All the members are informed that:

the Ordinary and the Special business set out in the Notice of 60° AGM may be transacted through voting by electronic means only;

the remote e-voting shall commence on Tuesday, 24th September, 2024 at 9,00 a.m.; iii. the remote e-voting shall end on Thursday, 26" September, 2024 at 5.00 p.m.;

iv. the cut-off date for determining the eligibility of members to vote by electronic means in connection with the 60" AGM is Friday, 20" September, 2024;

v. any person, who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 20th September, 2024, may obtain login ID and password by sending a request at helpdesk evoting@cdslindia.com or rnt.helpdesk@linkintime.co.in. However, if a person who is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote:

vi, members may note that : a) the remote e-voting module shall be disabled by the CDSL after the aforesaid date and time for e-voting and remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time; and once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for e-voting will also be available during the 60"AGM also; c) the members who have cast their vote by remote e-voting facility may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast vote again during the 60" AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members and List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Friday, 20" September, 2024 shall only be entitled to attend the 60" AGM and to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting

vii. The manner of remote e-voting and e-voting by the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email address is provided in the Notice of the 60" AGM; In case of queries / grievances pertaining to remote e-voting and joining the AGM through VC / OAVM, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and evoting user manual for members at the help Section at https://www.eyotingindia.com or call

on helpdesk at toll free no: 1800 225 533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A Wing, 25" Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013 at the designated e-mail Id: helpdesk.evoting@cdslindia.com. 5. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 21"September, 2024 to

Friday, 27" September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 60" AGM and payment of For Hindustan Composites Limited

dividend, if declared.

Place: Mumbai Date : 30" August, 2024

Arvind Purohit Company Secretary & Compliance Officer Membership No. A33624

QUINT DIGITAL LIMITED

(FORMERLY QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED)

CIN: L63122DL1985PLC373314, Regd. Office: 403 Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi- 110008 Tel: 011 45142374 Corp. Office: Carnoustie Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A, Film City, Noida-201301 Tel; 0120 4751818 Website: www.quintdigitalmedia.com Email: cs@thequint.com

NOTICE OF 39" ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 39" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Friday, September 27, 2024, at 04:00 p.m. (IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") without physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The venue for the AGM shall be deemed

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and the Rules made thereunder read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, read with other relevant circulars including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations") read with circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and other relevant circulars including Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") ("SEBI Circulars"), the 39" AGM of the Company is being held through VC/OAVM. In terms of the said MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24,

is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant ("DP")/ Skyline Financial Services Private Limited, Registrar & Share Transfer Agent ("SKYLINE"). The same are also available on the Company's website www.quintdigitalmedia.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com. The Notice of the AGM is also disseminated on the website of the CDSL i.e. www.evotingindia.com. In compliance with the provisions of Section 108 of Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules.

2014 as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, Secretarial Standard- 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Company is pleased to offer its Members (holding shares either in physical and electronic form) the facility to exercise their vote by electronic means (remote e-voting) as well as e-voting during the AGM on all the resolutions set forth in the Notice of the 39th AGM Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the virtual platform of Central Depository India

Services (India) Limited ("CDSL"). The link for VC/ OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned in the notice. The Company has appointed Mr. Devesh Vashisht, (CP No. 13700), Managing Partner of M/s DPV & Associates, LLP, as Scrutinizer to

scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

The results will be announced within the stipulated time under applicable laws and the results along with the consolidated scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company www.quintdigitalmedia.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com and shall simultaneously be forwarded to the concerned stock exchange. The results shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office & Corporate Office of the Company. Subject to the requisite number of votes, the Resolution shall be deemed to be passed on the date of the AGM i.e. September 27, 2024.

All the Members are informed that:

 a) Date and time of commencement of remote e-voting: Tuesday, September 24, 2024 (9:00 A.M. IST) b) Date and time of closing of remote e-voting: Thursday, September 26, 2024 (5:00 P.M. IST)

 Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Thursday, September 26, 2024, and once the vote on a resolution is cast. by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

 The facility for voting electronically will be made available during the AGM. Members whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories

remote e-voting then he/she can use the existing login Id and password for login.

as on the cut-off date i.e. Friday. September 20, 2024, shall only be entitled to attend and vote by remote e-voting or e-voting during the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice of AGM for information purpose only. EVSN: 240829010 g) The person who have acquired shares and became Members of the Company after the dispatch of notice may obtain the login ID

 Members who are present at the AGM and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.

and password by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a member is already registered with CDSL for

A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again

The detailed procedure and instruction for remote e-voting and e-voting during the AGM are given in the Notice of the AGM. The

same are also available on the Company's website www.quintdigitalmedia.com.

k) Members are requested to register their email addresses in respect of shares held in electronic form with their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form with the SKYLINE. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting

manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. For any other queries regarding attending the AGM through VC/OAVM or for any other matter, kindly write to the Company at cs@thequint.com or to the SKYLINE at pravin.cm@skylinerta.com.

m) Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions, if any of the Act and Listing Regulations, the Register of Members shall remain closed from Saturday, September 21, 2024, to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 39" AGM of the Company.

For Quint Digital Limited Tarun Belwal

NMDC LIMITED (A Government of India Enterprises)

"Khanji Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank,

Hyderabad-500028, CIN-L13100TG1958GOI001674 Invitation for Pre-Expression of Interest meeting for acquiring Land for Compensatory Afforestation Pre EOI No.: NMDC/Coal/Ho/Rohne/30

NMDC Limited, a 'Navratna' Public Sector Company under the Ministry of Steel, Government of India, invites interested and experienced firms to participate in a Pre-Expression of Interest (Pre-EOI) Meeting for engagement as a Consultant/Facilitator. The engagement is for acquiring approximately 1,950 acres of Non-Forest Land (NFL) and transferring it in favor of the Forest Department for Compensatory Afforestation (CA) to obtain Forest Clearance for the Rohne Coal Mine in Hazaribagh District, Jharkhand, within stipulated timeline. The Pre-EOI meeting is scheduled for September 10, 2024, 10 am, in Ranchi. The details of the Pre Eol-Meeting can be viewed and downloaded from 31.08.2024 to 10.09.2024 in the following websites. 1. NMDC website - https://www.nmdc.co.in

2. Central Public Procurement portal - https://www.eprocure.gov.in/

epublish/app and search pre EoI documents through the Pre EoI No. For accessing the details of pre EoI from NMDC Web site for the first time; on-line registration is required as 'New User' in 'Tenders' section at website link https://www.nmdc.co.in of NMDC. The intended parties are required to visit NMDC's Website and/or CPP Portal for corrigendum, if any, at a future date. For further details, following can be contacted.

General Manager (Coal), NMDC Ltd, 2nd Floor, JSFC Bhawan, Besides Bharat Petrol Pump, Kadru Main Road, Ranchi, Telephone No. 0651-299966 (Mob No: 7595986600, 9826247976) email: nmdccoal@nmdc.co.in General Manager (Coal) Ranchi

PANACHE DIGILIFE LIMITED CIN: L72200MH2007PLC169415

Mumbai - 400086, Maharashtra, India

Regd. Off.: Bldg. A3, 102-108 & 201-208, Babosa Industrial Park, Mumbai - Nashik Highway NH3, Saravali Village, Bhiwandi, Thane - 421302, Maharashtra, India Corp. Off.: B-507, Raheja Plaza Premises CSL, L.B.S. Marg, Ghatkopar West

Tel: 022-2500 7002; Email: info@panachedigilife.com; Website: www.panachedigilife.com

NOTICE OF SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the Seventeenth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Thursday, September 26, 2024 at 03:00 p.m. IST through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with enabling circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs.

The Notice of the 17th AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-24 will

be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited ("RTA")/Depositories. Members holding shares in dematerialized form, are requested to register their email address and mobile number with their Depository Participants and members holding shares in physical form are requested to furnish details of email address and mobile number to the RTA at vinod.y@bigshareonline.com. The Notice of 17th AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-24 will also be available on the website of the Company at www.panachedigilife.com, website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com, being the agency appointed by the Company for providing e-voting and VC/OAVM facility for the AGM. Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the business set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting. The manner of remote e-voting for members holding shares in dematerialization form, physical form and members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The facility of e-voting will also be provided at the AGM and members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting, will be able to vote at the meeting.

For Panache Digilife Limited

Place: Mumbai Date: August 30, 2024

Harshil Chheda Company Secretary & Compliance Officer **AARTI INDUSTRIES LIMITED**

ITRAA INDUSTRIES

Reg. Off.: Plot No 801/23 GIDC Estate, Phase III, Vapi Gj 396195 IN E-mail ID: investorrelations@aarti-industries.com Website: www.aarti-industries.com

CIN: L24110GJ1984PLC007301

Transfer of Equity Shares of the Company to **Investor Education and Protection Fund (IEPF)**

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education

and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the Dividend declared for the financial year 2016-17, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF. The corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be ransferred as per the procedure set out in the Rules.

In compliance with the Rules, Individual notices are being sent to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF as per the aforesaid Rules, the full details of such shareholders is made available on the Company's Website: n this connection, please note the following:

1) In case, you hold shares in physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you will stand automatically cancelled.

2) In case, you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to the IEPF.

In the event valid claim is not received on or before **October 25, 2024**, the Company will proceed to transfer the liable dividend and corresponding Equity shares in favor of IEPF authority without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules. It may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend from IEPF authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online after obtaining Entitlement letter from the Company.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at Link Intime India Private Limited, Unit: Aarti Industries Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400 083. Tel: 022-49186000. **Email:** iepf.shares@linkintime.co.in.

For Aarti Industries Limited

Raj Sarraf

Company Secretary

Mumbai / August 30, 2024

GROUP PHARMACEUTICALS LIMITED

CIN: U24239MH1980PLC022889

Regd.off: W-46 (B) M I D C, Tarapur Industrial Area Thane, Maharashtra, 401506 Tel: + 91 8087655188 Website: https://www.grouppharma.com/ Email: shareholder@grouppharma.in

Notice is hereby given that 44th Annual General Meeting ("AGM") of Group Pharmaceuticals Limited ("the Company") will be held on Saturday, 21" September, 2024 at 12:00 Noon. Pursuant to Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular 02/2022 dated May 05, 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), the AGM is being held through Video

Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility being provided by

National Securities Depository Limited (NSDL), to transact the businesses as set

out in the Notice dated 8" August, 2024 convening the AGM.

44" ANNUAL GENERAL MEETING

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and the MCA Circulars mentioned above, electronic copies of the Notice convening the AGM and the Annual Report for the year ended 31" March 2024 is sent by email on 30" August, 2024 to all such Members of the Company whose Email IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent viz. Bigshare Services Private Limited ("Bigshare")/ their respective Depository Participant(DP). The Notice of the AGM will also be available on the Company's website: https://www.grouppharma.com/, Members holding shares in physical form may get their Email ID by providing their Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (selfattested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by Email to Bigshare at prasadm@bidgshareonline.com. In case shares are held in dematerialized form, the Members may kindly register their Email ID with their DP.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company is pleased to provide to its Shareholders, the facility of Remote E-voting" i.e. facility to cast votes from a place other than the venue of being provided through NSDL.

the AGM, by using an electronic voting system, on all the resolutions proposed to be considered at the AGM. The Remote E-voting and E-voting at the AGM is In accordance with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has fixed 14" September, 2024 as the "cut-off date" to determine the eligibility of Members to vote by electronic means or at the AGM. A person whose name appears in the Register of Members of the

Depositories as on the cut-off date i.e., 14" September, 2024, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or vote at the AGM. The Remote E-voting details are as follows: (i) Date & time of commencement of Remote E-voting through electronic

Company or in the Statement of Beneficial Owners maintained by the

means: Wednesday, 18" September, 2024 at 9:00 a.m. (ii) Date & time of end of Remote E-voting through electronic means: Friday, 20**

September, 2024 at 5:00 p.m. (iii) The Remote E-voting module shall be disabled by NSDL after 5.00 p.m. on Friday, 20" September, 2024.

(iv) A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

(v) The Members may go through the E-voting instructions contained in the Notice and in case of any queries/grievances, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting User Manual available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com/ or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send an email at evoting@nsdl.co.in or contact NSDL official Mr. Sanjeev Yadav at

In case a person has become Member of the Company after the dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date i.e. 14" September, 2024, he/she may write

he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. After receipt of the User ID and Password, such Members can exercise their voting rights through Remote E-voting by following the instructions or by voting at the AGM. The details of the meeting are also available on the Company website: By Order of the Board

Deepak Mohan Managing Director DIN: 07825780

financialexp.epapr.in

Date: 30* August, 2024

Date: August 30, 2024

Place: Noida

M. No. A39190

Company Secretary & Compliance officer

New Delhi

designated email ID: sanjeevy@nsdl.co.in The facility for E-voting shall also be made available during the AGM.

https://www.grouppharma.com/. Place: Mumbai

to NSDL on the email id: sanjeevy@nsdl.co.in requesting for the User ID and

Password. If he/ she is already registered with NSDL for Remote E-voting, then

ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज् लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः बी-09, 412, आईटीएल टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110088 ਟੇलੀ: 011-45058963, CIN: L74899DL1994PLC057507 ई-मेलः brilliantportfolios@gmail.com, वेबसाइट www.brilliantportfolios.com

30वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सुचना एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 30**वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") रविवार, 29 सितंबर, 2024 को** पूर्वाह्न 11:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("वीसी"/"ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में बताए गए अनुसार व्यापार को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। एजीएम कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय (नवीनतम परिपत्र दिनांक 25 सितंबर, 2023) ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक

मोड़ के माध्यम से आयोजित की जाती है। एमसीए सर्कलर और भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) जारी सर्कलर के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") परिपत्र के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-2024 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ 30वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर

एजेंट ("आरटीए") या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी")/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि उनके पास डीमैट रूप में शेयर हैं तो वे अपने डीपी के पास तथा यदि उनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं तो कंपनी/आरटीए के पास ई-मेल पते पंजीकृत कराएं। इसके साथ ही, आरटीए की ई-मेल आईडी investor@masserv.com पर कंपनी को प्रतिलिपि मार्क करके brilliantportfolios@gmail.com पर भी ई-मेल करें।

वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.brilliantportfolios.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। नोटिस एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा। सदस्य केवल वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में शामिल

होने की प्रक्रिया और निर्देश नोटिस में बताए गए हैं। सभी सदस्यों (भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों/जिनके मेल पते डीपी/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं) के लिए

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। कृते ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली आशीष

दिनांक: 30.08.2024 कोटक महिंद्रा बैंक लिभिटेड कब्जा-सूचना पंजी. कार्याः 27BKC, C-27, G-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051 शाखा कार्यालयः प्लॉट नंबर ७, ७वीं मंजिल, सेक्टर -125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

जबिक, अधोहस्ताक्षरी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हिंत प्रवर्तन अधिनियम,2002 (2002 का 54) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जैसा कि नीचे दिया गया है, संबंधित उधारकर्ताओं को उसी की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है।उक्त ऋणी/सह-उधारकर्ता राशि का भूगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उस पर उल्लिखित तिथियों को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को सावधान किया जाता है कि वे संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन करने पर संबंधित तिथियां से भविष्य में ब्याज, लागत और शुल्क के साथ इसमें निर्दिष्ट राशि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ताओं का विवरण, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि, कब्जे की तारीख नीचे दी गई है:

	7/	
उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	अचल संपत्ति का विवरण	 कब्जे की तिथि 2. कब्जे का प्रकार मांग सूचना दिनांक 4. देय राशि रु.

मेसर्स वी गो मोटर प्राइवेट लिमिटेड अपने सेक्टर 53, गांव वजीराबाद, महरौली 1. 28.08.2024

निदेशक श्री विवेक गोयल और श्रीमती अंजू गुड़गांव रोड, (डीएलएफ सिटी के 2. भौतिक कब्जा गोयल और श्री विवेक गोयल के माध्यम से, पास),तहसील और जिला गुड़गांव के 3. 19.01.2024 स्वर्गीय श्री मूल चंद गोयल और श्रीमती अंजू हरियाणा राज्य में स्थित बहुमंजिला इमारत गोयल, पुत्र श्री विवेक गोयल, सभी के पते: जिसे "साउथ प्वाइंट" के नाम से जाना 4 रु.2,73,73,160.34/-ई1/4, पांडव नगर, हीरो मोटरकॉर्प शोरूम जाता है, भूमि के भूखंड पर निर्मित है,में (दो करोड़ तिहत्तर के ऊपर, पटपड़गंज, दिल्ली–110092 और निचले तल पर दुकान संख्या एलजी–027 लाख तिहत्तर हजार सभी के पतेः एच.नं. 76, सेक्टर—15 पार्ट प का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश ,जिसका एक सौ चौसठ एवं गुड़गांव—122001 और सभी के पतेः सेवा ग्रांड मॉल, मथुरा रोड, फरीदाबाद — 121003 और खसरा संख्या (एस) 310/1/2/2, 2393 हरियाणा—122001 और सभी के पते: दुकान | 70.307 वर्ग मीटर (757 वर्ग फीट) या | दिनांक 28.08.2024 ⁻ नंबर 27 निचला तल, डीएलएफ साउथ उसके आसपास है, जो संलग्न योजना में पर्ण भगतान होने तक प्वाइंट मॉल, सेक्टर-53 गोल्फ कोर्स गुरुग्राम, है औरनिम्नानुसार अनुसार घिरा हुआ है- लागू ब्याज के साथ हरियाणा—122011 उत्तर-एलजी-028,024, पश्चिम-खुला। ऋण खाता सं. 04301 दक्षिण-एलआईजी-026, पूर्व- मार्ग/ ऋण राशि ःरु. 1,83,70,000/— (एक करोड़ एलजी— बंधककर्ता का नामः श्री विवेक

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री पंकज राय (मोबाइल नंबर +917768003567) एवं श्री मनीष सती मोबाइल नंबर (+919855078208) से संपर्क करें।

दिनांकः 31.08.2024, स्थानः नोएडा प्राधिकृत अधिकारी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के लिए



तिरासी लाख सत्तर हजार रूपये मात्र)।

RATHI BARS LIMITED

Regd. Office: A-24/7, Mohan Co-operative Industrial. Estate. New Delhi-110044 Ph.: 011-42760373, 42730360 Web: www.rathisteels.com, E-mail: rathibars@hotmail.com NOTICE OF THE 31ST ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 31" Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, the 24° September, 2024 at 10:00 A.M. IST through video conferencing ("VC") / other audio-visual means ("OAVM"). The Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 including the financial

statements along with the Notice of the AGM will be sent only by email to all those members whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants and the Company's Registrar and Transfer Agent, in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

The dispatch of notice of AGM, through e-mail shall be completed by 01.09.2024. Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, that the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from 19° September, 2024 to 24th September, 2024 (Both days inclusive) for 31th Annual General Meeting

In compliance with the Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation. 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014, the Company is pleased to inform that it is offering remote e-voting facility to all the shareholders of the Company

in respect of all the items to be transacted at the said Meeting. Members are also informed that the Notice of the 31st AGM along with detailed instructions for e-voting and Annual Report for the year 2023-24 will also be available on the Company's website http://rathisteels.com/, website of stock exchange i.e. www.bseindia.com. The e-voting period shall commence on Saturday 21" September, 2024 at 09:00 AM and shall end on Monday 23"

September, 2024 at 05:00 PM. The Company has appointed M/s PWR Associates, Company Secretaries, Delhi as the Scrutinizer

to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner For detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer to the "Notes" set out

in the Notice of the AGM. In case of any query regarding e-voting or technical assistance, members may contact at info@masserv.com. Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their

email address in respect of demat holdings with depository through their concerned depository Participants. Members who hold the shares in physical form are requested to get their email id registered with MAS Services Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company. By order of the Board For RATHI BARS LIMITED

Place: New Delhi Date: 30.08.2024

(Anamika Shukla) Company Secretary and Compliance Officer

बर्विन इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड 607, रोहित हाउस, 3, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 सीआईएन : L65993DL1990PLC039397 ईमेल आईडी:- secretary@bervin.com; वेबसाइट: www.bervin.com

34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग सूचना एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि बर्विन इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड ("कंपनी") की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बृधवार, 25 सितंबर, 2024 सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) को एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाही करने के लिए, नंबरदार चौपाल, शीतल टेंट हाउस के पास, गली नंबर-2, कपासहेडा, हाई टेंशन वाली गली, दिल्ली-110037 में आयोजित होने वाली है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की

रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और एजीएम की सूचना सहित) का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण / भौतिक प्रेषण 30 अगस्त, 2024 को पूरा हो गया है। ये सभी सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bervin.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध हैं। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम,

2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ ("विनियम") के विनियम ४४, जैसा कि संशोधित किया गया है,के अनुसार, कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यवाही किया जा सकता है। रिमोट ई–वोटिंग और मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तारीख

बंधवार, 18 सितंबर, 2024 है। कोई व्यक्ति जो कट—ऑफ तारीख तक सदस्य नहीं है, उसे इस ोटिस को केवल सूचना के लिए लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोट डालने के लिए एक युजर आईडी और पासवर्ड सभी सदस्यों को भेज दिया गया है। 1. रिमोट ई—वोटिंग रविवार, 22 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और

मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 (शाम 05:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल "एनएसडीएल " द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में निहित हैं। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य

बन जाता है और कट—ऑफ तिथि यानी बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में भी दी गई है, जो कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

हालाँकि, यदि आप रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध " भूल गए उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड " विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री नंबर : 022-4886 7000 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं।

. इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम या पोलिंग पेपर के माध्यम से मतदान करने की सविधा भी एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी।

कोई सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में फिर से मतदान करने की

अनुमति नहीं दी जाएगी। . वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा कट ऑफ तारीख को बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सविधा के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग का भी हकदार होगा।

कंपनी ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए पूर्णकालिक कंपनी सचिव सुश्री मनीषा गुप्ता को स्क्रुटिनाइजर नियुक्त किया है। उन्होंने ऐसी नियुक्ति के लिए अपनी सहमति दे दी है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या 022-4886 7000 (टोल फ्री) पर एनएसडीएल को कॉल कर सकते हैं या श्री रविंदर दुआ,प्रबंधक, आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड,बी-25 / 1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-II, नई दिल्ली-110020,

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30-08-2024

दुरभाष:--011--26387320--21 से संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड के आदेशानुसर बर्विन इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड के लिए

> हस्ता -/ कल्पना उमाकांत कंपनी सचिव



चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

निगमित कार्यालय: चोल क्रेस्ट, सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई 600032, भारत, **शाखा कार्यालय :** प्रथम एवं द्वितीय तल, भूखंड सं. ६, मुख्य पूसा मार्ग, करोल बाग,

अधिग्रहण सूचना नियम 8 (1) के अंतर्गत

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **मैसर्स चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत अधिनियम के रूप में संबोधित) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें उधारकर्ताओं, जिनके नाम निम्न स्तंभ (ख) में निदर्शित किए गए हैं, को निम्न स्तंभ (घ) में उल्लेखित बकाया राषि का राशि पर ब्याज के साथ निम्न स्तंभ (ग) में विनिर्दिष्ट तिथियों पर, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न स्तंभ (ड.) में विवरणित कंपनी के पास बंधककृत संपत्तियों का, उक्त नियमावली के अंतर्गत विरचित नियम 3 के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न स्तंभ (च) में अंकित संबंधित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि निम्न स्तंभ (ङ.) में वर्णित संपत्तियों का लेन-देन न करें तथा इस प्रकार का कोई भी लेन-देन, ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ निम्न स्तंभ (घ) में अंकित एक राशि हेत् मैसर्स चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के अंतर्गत, उधारकर्तागण विक्रय की अधिसूचना से पूर्व समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों सहित संपूर्ण बकाया देयराशि का भूगतान करके प्रतिभूत परिसंपत्ति को छुड़वा सकते हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अधिग्रहीत संपत्ति के विवरण	मौतिक अधिग्रहण की तिथि
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]
1.	ऋण खाता संख्या : X0HEDHE00001266800 तथा X0HEEDL00001512870 1. आशा रानी (आवेदक) 2. राजिंदर बब्बर (सह—आवेदक) 3. जितेंदर बब्बर (सह—आवेदक) सभी का निवास—पता : 185, ब्लॉक बीएम (पश्चिम), शालीमार बाग, नई दिल्ली — 110088	13.12.2023	रु. 30,24,111 / — 08—12—2023 को	संपत्ति — भूखण्ड सं. 185, ब्लॉक सं. बीएम (पश्चिम), शालीमार बाग आवासीय योजना के लेआउट प्लान, दिल्ली—88 में स्थित, क्षेत्र माप 180 वर्ग मीटर, जो निम्नानुसार परिसीमित है :— पूर्व— सड़क 18 मीटर, पश्चिम— एस. लेन, उत्तर— भूखण्ड सं. 186 तथा दक्षिण— भूखण्ड सं. 184	

SMFG Grihashakti

दिनांक : 29 / 08 / 2024, स्थान : दिल्ली

कंपनी सचिव

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व मेंफुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

कॉर्पोरेट ऑफिसः 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसपायाबीकेसी, बीकेसीमेनरोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400 051 **रजि. ऑफिसः** मेघटावर्स, तीसरी मंजिल, पुरानानंबर 307, नयानंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरावॉयल, चेन्नई– 600 095,

प्राधिकत अधिकारी : चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबिक अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ख्लाष्ट्रीय आवास बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली), (इसके बाद इसे एसएमएफजी के रूप में संदर्भित किया गया है) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 3 के तहत धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2002 में उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित डिमांड नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आपको उधारकर्ता (नीचे उल्लिखित नाम) होने के नाते उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। नीचे उल्लिखित उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उप के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ कब्जा ले लिया है। ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सामान्य रूप से जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति और किसी के साथ लेनदेन न करें। संपत्ति के साथ लेनदेन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए 'एसएमएचएफसी' के शुल्क के अधीन होगा।

क्रं सं.	उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं)का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	कब्जे की तिथि
1	लैन :— 609139211261567 एवं 609139511332701. (1) जनेश कुमार (2) संगीता देवी (3) सौरभ कुमार (4) सचिन	संपत्ति संख्या बी–13/6 में सच, और नया नंबर बी–13/6–ए, बाहर खसरा नंबर 298, बी–ब्लॉक गली नंबर 3, भजनपुरा, इलाका शांहादरा दिल्ली – 110053 की आबादी में ग्राम घोंडा गुजरान खादर में स्थित।	14.06.2024 रु. 23,09,774/— (रुपये तेईस लाख नौ हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) 12.06.2024 तक	27.08.2024
2	लैन:—609108810718771, 605438310890533 और 609138310726825. (1) स्वर्गीय राधेश्याम पांडे कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से (2) ममता पांडे (3) संजय पांडे	प्रवेश निर्मित तीसरी मंजिल छत के अधिकार के साथ फ्री होल्ड निर्मित संपत्ति का हिस्सा असर संख्या डब्युजेड—पी —535—बी, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, (62.71 मीटर) खसरा नंबर 366, खेवट नंबर 20ध्21 में से प्लॉट नंबर 34 और 35 पर निर्मित, गांव सलीमपुर माजरा, मादीपुर, दिल्ली कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित है जिसे ऋषि नगर शकूर बासित दिल्ली — 110034 के नाम से जाना जाता है।	14.06.2024. रु. 9,84,249 /— (रुपये नौ लाख चौरासी हजार दो सौ उन्चास मात्र) 12.06.2024 तक	27.08.2024
3	लैनः— 609139210843539 (1) नरेन्द्र कुमार राठौर (2) सावित्री	बिना छत के अधिकार के निर्मित प्रथम तल उक्त तल संपत्ति का हिस्सा है जिसका नाम है संख्या 27/1, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा संख्या 201 में से, ब्लॉक ए में, ग्राम नसीरपुर दिल्ली राज्य कॉलोनी की राजस्व संपदा में स्थित है जिसे दुर्गा पार्क नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है, इसकी सीमा इस प्रकार है:— पूर्व:— प्लॉट संख्या 28, पश्चिम:— गली 15 फीट, उत्तर:— अन्य संपत्ति, दक्षिण:— अन्य संपत्ति।	14.06.2024. रु. 20,31,509 / — (रुपये बीस लाख इकतीस हजार पाँच सौ नौ मात्र) 12.06.2024 तक	27.08.2024
4	लैनः— 610307510487291 (1) चांद बशलुदीन पुत्र बशीलउद्दीन (2) गुड़िया बेगम	प्लाट संख्या 6 के भाग पर निर्मित मकान, क्षेत्रफल 74.32 वर्ग मीटर, नारायण नगर, मौजा बोदला, लोहामंडी वार्ड, तहसील और जिला आगरा में स्थित है। बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएं: — पूर्व:—प्लाट संख्या 5 श्रीमती रजीना बेगम, पश्चिम:—प्लाट संख्या 6 का भाग, उत्तर:—रोड 6.09 मीटर, दक्षिण:—अन्य।	11.05.2024 रुपये 11,00,407 / — (ग्यारह लाख चार सौ सात रूपये मात्र) 09.05.2024 तक	27.08.2024
5	लैन:— 612839511201008 (1) दिनेश सैनी पुत्र सर्वेश कुमार (2) सर्वेश कुमार पुत्र राम चंद्र	मुरादाबाद के मझोला परगना में स्थित खसरा संख्या 621 में से 266.64 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक आवासीय मकान, जिसकी सीमा इस प्रकार है:— पूर्व:— तिरखा सिंह का मकान, पश्चिम:— जसपाल का मकान, उत्तर:— रोड 12 फिट चौड़ा, दक्षिण:— द्वारका सिंह,	19.04.2024 रुपये 26,20,537 /— (रुपये छब्बीस लाख बीस हजार पांच सौ सैंतीस मात्र) 18.04.2024 तक	27.08.2024

स्थान , दिल्ली/आगरा/मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश दिनांकः 27.08.2024

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनीलिमिटेड (पूर्व मेंफुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

फॉर्म संख्या सीएए-2 (धारा 230(3) और नियम 6 और 7 के अनुपालनार्थ)

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच—प्प के समक्ष कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीएए) 30 / सीएचडी / एचआरवाई / 2024

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और धारा 52 के साथ धारा 230-232 के अंतर्गत) कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 और 7 के अंतर्गत के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

66 और धारा 52 के साथ धारा 230-232 के मामले में, निम्नलिखित की व्यवस्था की योजना में:

एंटेलोपस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सेलान एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड

..(हस्तांतरक कंपनी / आवेदक कंपनी 1)

.(हस्तांतरित कंपनी / आवेदक कंपनी 2) एंटेलोपस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ("ट्रांसफेरर कंपनी") के इक्विटी शेयरधारकों एवं क्लास ए1 इक्विटी शेयरधारकों की बैठकों और

सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ("ट्रांसफररी कंपनी") के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की सूचना का विज्ञापन। एतद्दवारा दी जाती है कि 12 अगस्त, 2024 ("आदेश") के आदेश द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("एनसीएलटी") की चंडीगढ पीठ ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और धारा 52 के साथ पठित धारा 230-232 के तहत और उसके तहत बनाए गए नियमों ("योजना") के तहत एंटेलोपस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ("ट्रांसफरर कंपनी" या "एंटेलोपस") और सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ("हस्तांतरिती कंपनी" या "सेलन") और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था की समग्र योजना में निहित व्यवस्था पर एंटेलोपस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और क्लास ए1 इक्विटी शेयरधारकों की बैठक और सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक को इस बात पर विचार करने के उद्देश्य से आयोजित करने का निर्देश दिया है, और यदि उचित समझा जाए तो, संशोधन के साथ या बिना संशोधन अनुमोदन किया जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में तथा उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार, यह सुचित किया जाता है कि उपरोक्त बैठकें नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से आयोजित की जाएंगी तथा पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय पर अपनी–अपनी बैठकों में उपस्थित हों: बैठकों का कार्यक्रमः

क्र .	बठका का वग	बठका का दिन और तिथि	बंठका का समय	बंदका का स्थान	दूरस्थ इ—मतदान अवाध
1.	एंटेलोपस के इक्विटी शेयरधारक	शनिवार, 05 अक्टूबर, 2024	10:30 पूर्वोह्न	पंजीकृत कार्यालय (वीसी बैठक के लिए माना गया स्थान)	से: सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) तक: शुक्रवार, 04 अक्टूबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)
2.		शनिवार, 05 अक्टूबर, 2024	11:30 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय (वीसी बैटक के लिए माना गया स्थान)	से: सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) तक: शुक्रवार, 04 अक्टूबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)
3.	सेलन के इक्विटी शेयरधारक	शनिवार, 05 अक्टूबर, 2024	दोपहर 12:30 बजे	पंजीकृत कार्यालय (वीसी बैठक के लिए माना स्थल)	से: सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) तक: शुक्रवार, 04 अक्टूबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)

उपर्युक्त बैठकों के संबंधित नोटिस का पूरा सेट व्याख्यात्मक बयानों और अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ (ए)सेलन के सभी इक्विटी शेयरधारकों को भेजा जा रहा है जिनके नाम सोमवार, 12 अगस्त, 2024 को सेलन/डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं; (बी) एंटेलोपस के सभी इक्विटी शेयरधारकों को, जिनका नाम सोमवार, 12 अगस्त, 2024 को एंटेलोपस द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है और (सी) एंटेलोपस के सभी क्लास ए1 इक्विटी शेयरधारकों को, जिनका नाम सोमवार, 12 अगस्त, 2024 को एंटेलोपस द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है।

यदि आवश्यक हो, और आगे की जानकारी के प्रसार को सक्षम करने के उद्देश्य से, उपर्युक्त शेयरधारक सेलन को investors@selanoil.com पर और एंटेलोपस को compliances@antelopusenergy.com पर ईमेल भेजकर अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं। उपर्युक्त बैठकों के उद्देश्य से, एंटेलोपस और सेलन ने अधिकृत एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") को नियुक्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों के लिए वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा संबंधित बैठकों से पहले (दूरस्थ ई–वोटिंग स्विधा) और साथ ही संबंधित बैठकों के दौरान (ई–वोटिंग सुविधा) प्रदान की जाएगी, जिनके नाम सोमवार, 12 अगस्त, 2024 को दर्ज किए जाएंगे, जो कि माननीय एनसीएलटी द्वारा 12 अगस्त, 2024 के आदेश के अनुसार निर्दिष्ट कट—ऑफ तिथि है। बैठक से पहले वोट देने वाले शेयरधारक वीसी के माध्यम से भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन अपनी संबंधित बैठकों के दौरान फिर से वोट करने के हकदार नहीं होंगे। ई–वोटिंग सुविधा का लाभ www.evoting.nsdl.com पर लॉग इन करके उठाया जा सकता है।

सेलन और / या एंटेलोपस का शेयरधारक होने के नाते कोई भी कॉर्पोरेट किसी भी व्यक्ति को संबंधित बैठक में भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से

मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि निदेशक मंडल के संकल्प या ऐसे अन्य शासी निकाय के संकल्प / प्राधिकरण आदि की एक प्रति, ऐसे व्यक्ति को, अपनी ओर से भाग लेने और / या मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करते हुए, जांचकर्ता को niharika.sohal@gmail.com पर और संबंधित कंपनी को investors@selanoil.com (सेलन) या compliances@antelopusenergy.com (एंटेलोपस) पर संबंधित बैठक से 48 घंटे पहले ई-मेल की जाए। कोई व्यक्ति जो सोमवार, 12 अगस्त, 2024 (कट—ऑफ तिथि) तक संबंधित कंपनी का सदस्य नहीं है, उसे नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए और वह बैठक में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।

उक्त नोटिस, व्याख्यात्मक वक्तव्य, योजना तथा अपेक्षित अनुलग्नकों की प्रतियां बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) से शाम 5.00बजे (आईएसटी) के बीच सेलन और एंटेलोपस के पंजीकृत कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं और यह एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com, सेलन की वेबसाइट www.selanoil.com और एंटेलोपस की वेबसाइट www.antelopusenergy.com पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, सेलन के इक्विटी शेयरधारकों की बैठकों की सूचना क्रमशः बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है। चुंकि संबंधित आवेदक कंपनियों के शेयरधारकों की बैठकें वीसी के माध्यम से हो रही हैं, इसलिए शेयरधारकों की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। तदनुसार, उपरोक्त बैठकों के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा

माननीय एनसीएलटी ने उपरोक्त सभी बैठकों के लिए एस पी सिंह चावला, एडवोकेट को अध्यक्ष, श्री अश्विनी शर्मा, एडवोकेट को वैकल्पिक अध्यक्ष तथा सुश्री निहारिका सोहल, कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया है। यदि उक्त बैठकों में योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो यह माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ बेंच की मंजरी के अधीन होगी।

दिनांकः 31 अगस्त, 2024 स्थानः नई दिल्ली

एस पी सिंह चावला, एडवोकेट (उपर्युक्त बैठकों के लिए माननीय एनसीएलटी द्वारा नियुक्त अध्यक्ष)

MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि 30.09.2023 & MSGL, SPL-16. One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tonure Gold loans up to 31.12.2023 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 30.06.2024 तक की अराधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के वहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत बुका है तथा जिन्हें बार-बार सूबना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाया नहीं गया है उनकी नीलागी 10.09.2024 को 10.00 बजे से शरू कर दी जाएगी

BHAGALPUR DISTRICT - BHAGALPUR: 431400041, 431400058, 431400058, 431400102, 431400132, 431400133, 431400135, 431400142, 431400147, 431400159, 431400167, 431400168, 431400183, 431400203, 431400248, 431400249, 431400255, 431400257, 431400279, 431400279, 431400287 431400290, 431400293, 431400342, 431400392, 431400419, F2519, F2549, F2736, F2843, F2848, F2914, DARBHANGA DISTRICT - DARBHANGA-BIHAR 4302000219, 4302000236, 4302000238, 4302000264, 4302000265, 4302000283, 430200030, 430200030, 4302000300, 4302000302, 4302000313, 4302000313, 4302000333 4302000339, 4302000340, 4302000341, 4302000365, 4302000360, 4302000362, 4302000370, 4302000386, 4302000391, 4302000394, 4302000397, 4302000401 4302000419, 4302000428, 4302000434, 4302000437, 4302000438, 4302000453, 4302000480, 430200047, 430200049, 430200049, 430200055, 4302000677, 430200102 430200107, 430200128, F1619, F1678, KATHAR DISTRICT - KATHAR: 432900044, 432900078, 432900109, 432900115, 432900126, 432900168, 432900176 432900179 432900181 432900205 432900206 432900207 432900216 432900245 432900245 432900205 432900313 432900328 432900338 F3063, F3102, F3184, F48, F667, F73, MUZAFFARPUR DISTRICT - MUZAFFARPUR GOBAR SAHI: 431500061, 431500065, 431500066, 431500100, 431500112 431500323, 431500325, 431500333, 431500348, 431500348, 431500348, 431500354, 431500358, 431500373, 431500374, 431500397, 431500400, 431500400 431500408, 431500409, 431500421, 431500426, 431500434, 431500435, 431500445, 431500450, 431500452, 431500460, 431500463, 431500469, 431500471 431500473 431500479 431500492 431500501 431500502 431500504 431500505 431500627 431500642 431500660 431500671 431500572 F1001 F1194 F1292, F1434, F1567, F1852, F2184, F264, F2701, F273, F2858, F2953, F2954, F297, F2991, F308, F3205, F3402, F3476, F3498, F3504, F3506, F383, F394 F424, F442, F443, F450, F451, F460, F479, F529, F531, F590, F627; F638, F933, MUZAFFARPUR ZERO MILE: 437700001, 437700007, 437700133, 437700136 437700139, 437700142, 437700158, 437700166, 437700166, 437700167, 437700182, 437700185, 437700191, 437700196, 437700196, 437700205, 437700205 437700241, 437700252, 437700258, 437700266, 437700278, 437700278, 437700286, 437700291, 437700293, 437700294, 437700294, 437700304, 437700313, 437700318, 437700321, 437700323, 437700324, 437700342, 437700344, 437700350, 437700355, 437700391, 437700398, 437700401, 437700402, 437700405, F1953, F1985 F2006, F2011, F2026, F2043, F2075, F2110, F2112, F2177, F2233.

नीलामी अपनी - अपनी शख्ताओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवंश उसी दिन पूरी न हो पाईलो नीलामी 21.09.2024 को सुबह 10.00 करें BHAGALPUR: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Door No: BC-013-0034, Girish Chand, Banarajee Road, Beside State Bank of India, Bhagalpur, Bihar - 812001. KATIHAR: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Door No. 1, Aditya Complex, Marchaiban, Katihar Purnia Road, Civil Court Post, Kaithar District, Bihar - 854105. DARBHANGA-BIHAR: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Khata No 20026, 20027 & 20028, Kotwali Chowk, Near Police Station and Hanuman Mandir, Naka No 5, Lalbagh Post, Darbhanga, Bihar - 846004. MUZAFFARPUR GOBAR SAHI: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Door No. A2, Sunaina Bhawan, New Professor Colony, Opposite Mian Residency, Muzatfarpur Gobar Sahi, Chowk, Muzatfarpur, Bihar - 842001, पर आयोजित की जाएगी। निविद्याकर्ताओं से निवेदन है कि वे फोटो पहचान - पत्र, चुत्र किनकॉर्प सिमिटेन PAN कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्वांसफर करना होगा ।

✓ YES BANK

दिनों के भीतर दायित्वधारियों को करना होगा।

यस बैंक लिभिटेड पंजीकृत कार्यालयः यस बैंक हाउस, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, सांताकूज ईस्ट, मुंबई- 400055 शाखा कार्यालयः - प्लॉट नंबर १/९, पटेल नगर (पश्चिम), नई दिल्ली-११००८ वेबसाइटः www.yesbank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित।

आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटर और बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा **यस बैंक लिक्रिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी अर्थात स्रक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटर और बंधककर्ताओं से स्रक्षित लेनदार को देय नीचे उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए 19 सितंबर, 2024 को "जहां है जैसा है" "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा।

क्र.	उधारकर्ता और सह- उधारकर्ता, गारंटर का नाम	मांग सूचना राशि	संपत्ति का विवरण	आरक्षित	बयाना राशि				
सं.	उपारकता, जास्टर का जाम	lens	Iddeal	मूल्य (रू.)	जमा (रू.)				
1.	(1) अरविंद कुमार रॉय और	₹. 41,72,857.63	संपूर्ण प्रथम तल बिना छत के अधिकार के	रूपये	रूपये				
	(2) सुश्री मीना कुमारी	(रुपये इकतालिस लाख बहत्तर	संपत्ति संख्याः — 273, सेक्टर—19, द्वारका,	52,00,000 /-	5,20,000/-				
	., 0	हजार आठ सौ सत्तावन तथा पैसे	नई दिल्ली— 110075						
		तिरसठ मात्र)							
		03—अक्टूबर—2023 तक							
	ई-नीलामी की तिथि और समयः 20 सितंबर, 2024 सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 17 सितंबर, 2024 दोपहर 3.00 बजे तक								
	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समयः 13 सितंबर, 2024 सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।								
2.	(1) श्री अलीहसन अयूब और	रु. 2,100,672.08 ∕ —	प्लॉट नं. 119, एलआईजी, फ्लैट नं.	रूपये	रूपये				
	(2) सुश्री अंजुम नाज।	(रुपये इक्कीस लाख छह सौ	एफएफ–1, प्रथम तल, ब्लॉक–सी, चार्म्स–ट,	13,75,000 / —	1,37,500 / -				
		बहत्तर और आठ पैसे मात्र)	शालीमार गार्डन एक्सटेंशन—।।, गांव—पसौंडा,						
		०४ प्रध्यक्ती २०२२ तक देग	ग्राम्य सीनी मानिसातार उस्त परेष						

01—फरवरी—2023 तक देय परगना–लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ई-नीलामी की तिथि और समयः 20 सितंबर, 2024 सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 17 सितंबर, 2024 दोपहर 3.00 बजे तक संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समयः 12 सितंबर, 2024 सुबह 2:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक।

5								
3.	(1) सुश्री कौसर इदरीश और	⊽. 16,84,692.72 ∕ —	संपत्ति का पूरा हिस्सा प्लॉट नंबर बी–5/10,	रूपये	रूपये			
	(2) मो. इदरीश	(सोलह लाख चौरासी हजार छह	एलआईजी फ्लैट नंबर जीएफ—3, ग्राउंड फ्लोर, बाएं	6,90,000 / -	69,000 / -			
		सौ बानबें और बहत्तर पैसे मात्र)	हाथ पीछे की तरफ डीएलएफ अंकुर विहार, गांव—					
		18—मई—2022 तक	लोनी, तहसील और जिला– गाजियाबाद, (यूपी) में					
			स्थित है। सीमाएं: पूर्वः प्लॉट नंबर बी-5/11,					
			पश्चिमः प्लॉट नंबर बी-5/9, उत्तरः प्लॉट नंबर					
			बी3 / 17, दक्षिणः 9.00 मीटर चौड़ी सड़क					
	2							

ई-नीलामी की तिथि और समयः 20 सितंबर, 2024 सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 17 सितंबर, 2024 दोपहर 3.00 बजे तक संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समयः 12 सितंबर, 2024 सुबह 10:00 बने से दोपहर 11:00 बने तक।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.yesbank.in/about-us/media/auction-property सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.yesbank.in पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें। निविदा दस्तावेज / ई-बिडिंग कैटलॉग प्राप्त करने या अचल संपत्तियो / सुरक्षित परिसंपत्तियों के निरीक्षण में किसी भी कठिनाई के मामले में और प्रश्नों के लिए. कृपया यस बैंक लिमिटेड के संबंधित अधिकारियों, श्री मनीष कुमार संपर्क नंबर +919250003060 और ई-मेलः manish.kumar51@yesbank.in और मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद के अधिकारियों, वेब पोर्टल पते https://sarfaesi.auctiontiger.net

से संपर्क करें। बोलीदाता सहायता संख्याः +91 9265562821 / 18 और 9978591888, 079–68136880 / 68136837 | ई–मेलः support@auctiontiger.net और ramprasad@auctiontiger.net, संपर्क व्यक्तिः राम शर्मा –9978591888 अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार, यदि हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित कुल बकाया राशि नीलामी/बिक्री नोटिस के प्रकाशन से पहले किसी भी समय प्रस्तुत कर दी जाती है, तो हमारे द्वारा सुरक्षित परिसंपत्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, और हमारे द्वारा उस सुरक्षित परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा। उधारकर्ता/गारंटर/ को बिक्री सूचना

दिनांक: 30.08.2024, स्थान: दिल्ली एनसीआर हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी, यस बैंक लिमिटेड के लिए

उपरोक्त को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 9(1) सहपठित 8(6) के तहत नोटिस माना जाएगा, जिसका भुगतान प्रकाशन की तिथि से 15

क्विंट डिजिटल लिमिटेड (पूर्व की क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड)

सीआईएन: L74110DL1985PLC373314, पंजीकृत कार्यालय: 403 प्रभात किरण, 17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली -110008 टेली: 011-45142374 कॉपोरेंट कार्यालयः कैमौस्टीज बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 1, 9वीं मंजिल, सेक्टर 16ए, फिल्म सिटी, नोएडा -201301 टेली: 0120-4751818 वेबसाइट: www.quintdigitalmedia.com, ई-मेल: cs@thequint.com

39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को शाम 04:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी') / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थल पर आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा। 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020, 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023

('एमसीए परिपत्र') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ('सेबी परिपत्र') द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') तथा अन्य प्रासंगिक परिपत्रों सहित सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 और अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। उक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन

सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी')/स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('स्काईलाइन') के साथ पंजीकृत हैं। ये कंपनी की वेबसाइट www.quintdigitalmedia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक आम बैठक की सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित की गई संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44,

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों (भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) के साथ-साथ 39वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी इंडिया सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने की

सुविधा प्रदान की जाएगी। बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जहां नोटिस में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद कं पनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा। कंपनी ने मेसर्स डीपीवी एंड एसोसिएट्स, एलएलपी के प्रबंध साझेदार श्री देवेश विशष्ट (सीपी नंबर 13700) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया की जांच

करने के लिए स्क्रुटिनाइजर नियुक्त किया है। परिणाम लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाएंगे और समेकित स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.quintdigitalmedia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर रखे जाएंगे और साथ ही संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजे जाएंगे। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कॉपोरेंट कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। अपेक्षित संख्या में वोटों के अधीन, प्रस्ताव को

एजीएम की तारीख यानी 27 सितंबर, 2024 को पारित माना जाएगा। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः (क) रिमोट ई-वोटिंग शरू होने की तिथि और समय: मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 (सबह 9:00 बजे भारतीय मानक समय)

(ख) रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि और समयः गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 (शाम 5:00 बजे भारतीय मानक समय) (ग) रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे के बाद की अनुमति नहीं दी जाएगी, और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद,

सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (घ) एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांकः 30 अगस्त, 2024

स्थानः नोएडा

(ङ) जिन सदस्यों का नाम कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर या लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा भाग लेने और वोट करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस वार्षिक आम बैठक की सचना को केवल सचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

(च) ईवीएसएन: 240829010 (छ) जो व्यक्ति शेयर प्राप्त कर चुके हैं और सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो वह

लॉगिन के लिए मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। (ज) जो सदस्य वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-

वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। (झ) कोई सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है. लेकिन उसे एजीएम में दोबारा मतदान करने

(ञ) रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश एजीएम की सचना में दिए गए हैं। ये कंपनी की वेबसाइट www.guintdigitalmedia.com पर भी उपलब्ध हैं। (ट) सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में

स्काईलाइन के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत करें। (ठ) यदि आपके पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध

Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा e-voting manual देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी. सीनियर मैनेजर, सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यचरएक्स, मैटेरियल मिल कंपाउंडस, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 022-23058542/43 पर कॉल करें। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या किसी अन्य मामले के बारे में किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, कपया कंपनी को cs@thequint.com पर या स्काईलाइन को pravin.cm@skylinerta.com पर लिखें।

(इ) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और अधिनियम और सुचीबद्धता विनियमों के अन्य लागु प्रावधानों के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के अनुसार, कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर शनिवार, 21 सितंबर, 2024 से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (दोनों दिन अतिरिक्त) तक बंद रहेगा।

क्विंट डिजिटल लिमिटेड के लिए

तरुण बेलवाल कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता नं. ए३९१९०

www.readwhere.com